

February 10, 2022

**BSE Limited Corporate Services Department** Phiroze Jeejeeboy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Symbol: QUINT Scrip Code: 539515

#### Subject: Newspaper advertisement of Notice for Postal Ballot

# Reference: Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

In continuation to our letter dated February 9, 2022 and in terms of the Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "LODR"), please find enclosed the copies of newspaper advertisements confirming dispatch of Postal Ballot Notice, published in "Financial Express" (English Newspaper) and "Pratah Kiran" (Hindi Newspaper) on February 10, 2022 seeking approval of members for:

Item No.	em No. Description of the Resolutions				
1.	Ordinary Resolution to increase and reclassification of the Authorized Share Capital and amendment to the Memorandum of Association of the Company				
2.	Ordinary Resolution for approval for Related Party Transactions				

The above information will also be available on the website of the Company (i.e. <u>www.quintdigitalmedia.com)</u>.

We request you to take the above information on record.

Yours sincerely For Quint Digital Media Limited

Tarun Belwar **Company Secretary & Compliance Officer** M. No. A39190

#### **QUINT DIGITAL MEDIA LIMITED**

(Formerly known as Gaurav Mercantiles Limited)

Registered Office: 403 Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, Delhi- 110008 Tel: 011 45142374 Corporate Office: Carnousties's Building, Plot No. 1, 9th Floor, Sector 16A, Film City, Noida-201301 Tel: 0120 4751818 Website: www.quintdigitalmedia.com, email: cs@thequint.com, CIN: L74110DL1985PLC373314

# 16



### PERSONAL

I,Vipin Kumar Kaushik s/o Jagdish Prashad Sharma, R/o 1/4699,St.No.4B, Balbir-Nagar Extn. Shahdara.Delhi-110032, have changed my name to Vipin Kaushik, permanently.

0040602088-10

I.Mohammad Arif,s/o Mohammad Islam, R/o E-84/T 398, J.J.Camp Chitra-Vihar,Karkardooma,Delhi-110092, have changed my name to Aarif permanently.

0040602088-8

IJatin s/o Anil Khurana, R/o S-11, West Patel-Nagar, New Delhi-110008, have changed my name to Jatin Khurana permanently.

#### 0040602088-9

Pawan Kumar Jaiswal S/o Late. Krishna Jaiswal R/o A-1501, Amrapali Empire, crossing Republic, Ghaziabad, UP, have changed my son name from Pratyush Jaiswal to Shlok Jaiswal. In future, for all the work, be known by this name.

#### 0070772078-1

ANITA W/O BIJENDER SINGH R/O H-NO. 5 M BLOCK PH-2 **GOPAL NAGAR NAJAFGARH DELHI-110043 HAVE CHANGED** MY NAME TO ANITA KUMARI

## 0040602035-1

I PAPPU KUMAR S/O NAGMANI SINGH R/O D-12 GALI NO 11. LAHRI COLONY, EAST ARJUN NAGAR, SHAHADRA, DELHI-110032, HAVE CHANGED MY NAME TO NITESH KUMAR SINGH

0040602047-1

## # UNITY =

### UNITY SMALL FINANCE BANK LIMITED

CIN: U65990DL2021PLC385568 Regd.Off.: 40, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057.

Corporate Office : Centrum House, C.S.T. Road, Vidyanagari Marg, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400 098. Tel: 91 22 4215 9000 Website: www.theunitybank.com

#### Unaudited Financial Results for Quarter/Period ended 31st December, 2021

#### [Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015] (LODR Regulations) (? in Lakhs)

Sr	SI STICHT I SO	Quarter ended	Period ended
No.	PARTICULARS	31.12.2021	31.12.2021
1.	Total Income from Operations	4,408	4,408
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,054)	(1,626)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,054)	(1,626)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,054)	(1,626)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1,054)	(1,626)
6.	Paid up Equity Share Capital	70,490	70,490
7.	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)		21 - 52
8.	Securities Premium Account	40.032	40,032
9.	Net worth	99,491	99,491
10.	Outstanding Debt	1,21,232	1,21,232
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	10	11 Mar 11 San
12.	Debt Equity Ratio	1.11	1.11
13.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -		
	1. Basic:	(0.15)	(0.23)
	2. Diluted:	(0.15)	(0.23)
14.	Capital Redemption Reserve		-
15.	Debenture Redemption Reserve		

Note

Place : Mumbai

Dated : 09.02.2022

1. The above is an extract of the detailed format of guarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) website viz. www.bseindia.com and the Company website viz. https://theunitybank.com

2. For the other items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI Listing Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange BSE Limited and can be accessed on the Company website viz. https://theunitybank.com

The above unaudited financial results for the guarter and period ended December 31, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on February 09, 2022 respectively. The statutory auditors have carried out the Limited Review of the aforesaid results and have issued an unmodified report.

> For and on behalf of the Board of Directors Unity Small Finance Bank Limited

> > Vinod Rai

Part time Chairman DIN: 00041867

# QUINT DIGITAL MEDIA LIMITED

(Formerly known as Gaurav Mercantiles Limited)

#### DALMIA REFRACTORIES LIMITEI CIN:-L24297TN1973PLC006372: Regd. Office : DALMIAPURAM, P.O.KALLAKUDI-621651, DIST. TIRUCHIRAPALLI, TAMIL NADU Phone:-911123457100, Website: www.dalmiarefractories.com

#### EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021

(Rs. in lakh

S.No	Particulars	2		CONS	OLIDATED			
			Quarter Ended		Nine Nonth Ended		Year Ended	
		Dec 31, 2021 Unaudited	Sept 50,2021 Unaudited	Dec 31, 2020 Unaudited	Dec 31, 2021 Unaudited	Dec 31, 2020 Unaudited	Mar 31, 2021 Audited	
onsolida	ned Financial Results							
1	Income from operations	14,107.49	14,671.99	105 Relifice	40,807.41	26,006.07	39,408.12	
2	Profit/(Loss)before tax	931.01	821.06	280.91	2,503.38	709.03	1,136.30	
3	Net Profit/(Loss)after tax	685.26	527.49	167.72	1,734.97	377.68	665.21	
4	Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income)	(772.57)	2,053.12	1,954.61	3,530.58	3,921.07	7,980.24	
5	Paid-up equity share capital (Face Value Per Share Rs. 10/-)	325.11	315.21	315.21	325.11	315.21	315.21	
6	Other Equity excluding Revaluation Reserve Earning Per Share (of Rs. 10/- each)(not Annualised)						24,346.08	
,	(a) Basic	19.88	16.14	5.74	52.48	13.00	21.77	
	(b) Diluted	19.88	16.14	5.74	52.48	13.00	21.77	
tandalor	re Financial Results	1 (1) <sup>2</sup>						
1	Income from operations	7,152.04	8165.56	6,084.90	21,811.03	13,983.18	21,876.2	
2	Profit/(Loss) before tax	581.14	480.53	181.82	1,531.45	586.8	915.6	
3	Net Profit/(Loss) after tax	442.59	363.09	136.59	1,167.42	446.98	714.0	

Notes:

Pune

09.02.2022

Place:

Dated :

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing -1 Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Quarterly Financial Results is available on the stock exchange websites www.msei.in and www.cse-india.com and on the Companies websitewww.dalmiarefractories.com.

The above results have been reviewed by the Audit Committee of Board and subsequently approved by the Board of Directors on February 09, 2022. 2

and have been to the of an other of Board and Subsequency approved by the Board of Difference of the board and y
On behalf of the Board
For Dalmia Refarctories Limited
Sd/-
Deepak Thombre
Chairman
DIN: 02421599



#### Public Notice

It is for general information that I. PRASHANT SONAWANE S/O **RAMESH SONAWANE R/O 11** Vrinadavan garden phase-1 Roorkee Road P.A.C, Meerut, U.P.-250001, declare that name of my minor daughters SHRAVYA SONAWANE aged 17 years has been wrongly written as SRUSTI in her Birth Certificate and SRUSHTI SONAWANE in her 10th Class Mark Sheet cum certificate. The actual name of my minor daughter's is SHRAVYA SONAWANE, which may be amended accordingly.

# "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

#### Registered Office: 403 Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, Delhi - 110008 | Tel. No.: 011 45142374 Corporate Office: Carnousties's Building, Plot No. 1, 9th Floor, Sector 16A, Film City, Noida - 201301

Tel. No.: 0120 4751818 | Website: www.guintdigitalmedia.com | email: cs@theguint.com | CIN: L74110DL1985PLC373314

### NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/ 2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/ 2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/ 2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/ 2021 dated June 23, 2021 and General Circular No. 20/ 2021 dated December 8, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA") in view of COVID-19 ("MCA Circulars"), the Company is seeking consent of its shareholders for the proposed resolution as set-out hereinbelow, through postal ballot ("Postal Ballot") by way of voting through electronic means ("E-voting")

The Company has completed the dispatch of the Notice for Postal Ballot along with explanatory statement ("Postal Ballot Notice") on February 9, 2022 to all the Members whose name appears on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on February 4, 2022 ("Cut-off Date")

The Postal Ballot Notice has been sent through electronic mail to all the shareholders whose email addresses are registered in the records of depository participants. In terms of compliance with the requirements of the MCA Circulars, physical copy of the Postal Ballot Notice and pre-paid business envelope will not be sent to the members for this Postal Ballot and members are required to communicate their assent or dissent through the E-voting system only.

Following matters are being put for approval under the said Postal Ballot Notice sent to the members, through E-voting only:

#### Item No. Description of the Resolutions Ordinary Resolution to increase and reclassification of the Authorized Share Capital and amendment to the Memorandum of Association of the Company 2. Ordinary Resolution for approval for Related Party Transactions The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited ("CDSL") for the purpose of providing E-voting facility and members are requested to cast their votes electronically only in terms of MCA Circulars In light of the MCA Circulars, members who have not registered their email address and in consequence could not receive the Postal Ballot Notice may get their email registered by following the registration procedure provided under the Postal Ballot Notice. Upon successful registration or updating of the email address, the member would get soft copy of the notice and the procedure for E-voting along with the User ID and the Password to enable E-voting for this Postal Ballot. The E-voting period shall commence from Thursday, February 10, 2022 (9:00 A.M.) and will end on Friday, March 11, 2022 (5:00 P.M.). During this period, the members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date, may cast their vote electronically. The E-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The Board of Directors has appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht, Practicing Company Secretary and Partner of M/s Sanjay Grover & Associates, having CP No. 13700, as the scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit his report after completion of the scrutiny and the results of the Postal Ballot will be posted on the Company's website www.quintdigitalmedia.com, besides communicating to the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed on or before March 13, 2022. Members whose name appears on the Register of Members/ List of Beneficial Owner as on February 4, 2022 will be considered for the purpose of voting. A person who is not a member as on February 4, 2022 should treat this notice for information purpose only. Any Member who does not receive the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form may send an email to cs@thequint.com or subhashdhingreja@skylinerta.com. The Postal Ballot Notice and the Postal Ballot Form can also be downloaded from the Company's website www.guintdigitalmedia.com. The results of the Postal Ballot shall be declared by Chairman on or before Sunday, March 13, 2022, and shall be intimated to the stock exchanges on which the shares of company are listed. Also, the results will be posted on the Company's website www.guintdigitalmedia.com. In case of any queries or issues regarding E-voting, shareholders may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact Mr. Subhash Dhingreja, Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at A-505. Dattani Plaza, Andheri Kurla Road, Safeed Pool, Andheri - East, Mumbai, Maharashtra - 400072 at his email address: subhashdhingreja@skylinerta.com or Contact No. 022 28511022 / 49721245. By order of the Board of Directors For Quint Digital Media Limited Sd/-**Tarun Belwal** Place: Noida

Date: February 9, 2022

Company Secretary & Compliance Officer M. No. A39190

Regd.Office: 104, Vasan Udyog Bhavan, Sun Mill compound, Tulsi Pipe Road, Lower Parel, Mumbai - 400013. Email id- investor-relation@nykaa.com

### EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2021

Sr.	Particulars	Quarter ended 31st December, 2021	Quarter ended 31st December, 2020	Nine Months ended 31st December, 2021
No.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income	11,042.73	8,117.94	28,164.48
2	Profit before tax	369.76	849.41	414.90
3	Profit after tax	290.15	688.83	337.09
4	Total Comprehensive Income	290.59	687.27	340.16
5	Paid-up equity share capital	472.93	150.47	472.93
	Face value (In Rs.)	1.00	10.00	1.00
6	Other Equity as shown in the Audited Balance sheet of previous year			4,748.39
7	Earnings per equity share of face value of Re. 1/- each (not annualised)			
	Basic (In Rs)	0.60	1.57	0.70
	Diluted (In Rs)	0.60	1.50	0.69

Notes:

 The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Financial results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on company's website (www.nykaa.com)

Financial results of FSN E-Commerce Ventures Limited (formerly known as FSN E-Commerce Ventures Private Limited) standalone: (Rs in Million)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31st December, 2021	Quarter ended 31st December, 2020	Nine Months ended 31st December, 2021	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1	Total Income	691.28	653.04	2,015.00	
2	Profit before tax	212.70	210.42	697.59	
3	Profit after tax	167.61	168.88	548.57	

The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 9th February, 2022.

The review/audit as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 has been completed by the statutory auditors of the company except financial results for the three months and nine months period ended December 31, 2020 which have not been subjected to limited review or audit.

> For and on Behalf of Board of Directors of **FSN E-Commerce Ventures Limited** (formerly known as FSN E-Commerce Ventures Private Limited)

Place: Mumbai Date: 9th February, 2022

Falguni Nayar Executive Chairperson, CEO & Managing Director

## PANKAJ PIYUSH TRADE & INVESTMENT LIMITED

CIN: L65990DL1982PLC256291

REGD. OFFICE : 314, 3RD FLOOR, OPPOSITE PLOT NO. 39, RG MALL, SECTOR-9, ROHINI, NEW DELHI-110085 WEBSITE: www.pptinvestment.in , EMAIL: infopptinvestment@gmail.com, PHONE - 011-42804171, 9891442777 EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021 (Rs. In lakhs)

Sr.		Quarter Ended			Half Yea	Year Ended		
no	1000	Particulars	31-Dec-21 (Un-Audited)	30-Sep-21 (Un-Audited)	31-Dec-20 (Un-Audited)	31-Dec-21 (Un-Audited)	31-Dec-20 (Un-Audited)	31-Mar-21 (Audited)
1	Total income from operations (net)	40.85	73.38	109.37	163.01	802.17	992.95	
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax	29.15	23.5	19.24	66.18	81.29	10.35	
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	21.81	17.23	14.40	49.17	45.50	(7.57)	
4	Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	21.81	17.23	14.40	49.17	45.50	(7.57)	
5	Paid-Up Equity Share Capital	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)	2498.06	2498.06	2,705.63	2,498.06	2,705.63	2,505.63	
7	Earnings Per Share (before & after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)							
	Basic:	5.45	4.31	3.60	12.29	11.38	(1.89)	
	Diluted:	5.45	4.31	3.60	12.29	11.38	(1.89)	

#### NOTES:

The above un-audited financial results for the guarter ended 31st December, 2021 has been reviewed by the Audit Committee and then approved by the board of directors at their meeting held on 09th February, 2022

The above results have been prepared in compliance with the recognition and measurement principles of the Companies (India Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards Amendment) Rules, 2016 prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

Figures for the previous period have been regrouped wherever considered necessary so as to conform to the classification of the current period.

The format for above results as prescribed in SEBI's circular CIR/SFD/CMS/15/2015 dated 30th November, 2015 has been modified to comply with requirements of SEBI's circular dated 5th July, 2016, Ind AS and Schedule III (Division-II) to the companies. Act, 2013 applicable to companies that are required to comply with Ind AS.

These Results are also updated on the company's website URL: www.pptinvestment.in

For Pankai Pivush Trade & Investment Limited

	Sd/-
Date : February 09, 2022	Vinod Kumar Bansal
Place : New Delhi	Managing Director







Bengaluru

February 09, 2022

# The Sandur Manganese & Iron Ores Limited

Registered Office: 'Satyalaya', Door No.266 (Old No 80), Ward No.1, Behind Taluka Office Palace Road, Sandur - 583 119, Ballari District CIN:L85110KA1954PLC000759 STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2021

₹ Lakh

							1 Lan
	Particulars	Three	Preceding	Corresponding	Year to date	Corresponding	Year to date
		months	three months	three months	figures for	nine months	figures for
		ended	ended	ended in the	nine months	ended in the	the previous
				previous year	ended	previous year	year ended
		31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	49,845	57,394	12,235	1,55,551	40,078	76,436
2	Net profit / (loss) for the period/ year (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	17,563	29,329	3,292	70,859	12,847	24,953
3	Net profit / (loss) for the period/ year after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	10,886	18,194	1,857	43,959	8,302	15,393
4	Total comprehensive income for the period/ year [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	10,859	18,152	1,896	43,877	8,169	15,341
5	Equity Share Capital	900	900	900	900	900	900
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			5			98,411
7	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) -		19				10
-	1. Basic:	120.93	202.11	20.63	488.33	92.22	170.99
	2. Diluted:	120.93	202.11	20.63	488.33	92.22	170.99
	Note :						

The above is an extract of the detailed unaudited financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2021 filed with BSE Limited in compliance with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Full format of financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2021 is available on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and the Company.

for and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

**BAHIRJI A. GHORPADE** Managing Director







#### देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें

💟 @Pratahkiran 📘 www.pratahkiran.com

# केजरीवाल का ऐतिहासिक निर्णय, देश में पहली बार भाजपा किसान मोर्च का मुख्यमंत्री आवास के नजदीक धरना

#### नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

दिल्ली सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और किसान मुख्यमंत्री आवास के नजदीक चंदगी राम अखाडा पर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मगिं पुरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान परेशान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विध्रुडी ने कहा कि दिल्ली सरकार की गलत नीतिबों से किसान परेशान हैं। चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। बिजली पर छूट तो दूर किसानों से व्यवसायिक दर पर बिजली बिल वसूला जा रहा है। बिजली बिल के साथ उन्हें भारी भरकम स्थायी शुल्क भी देना पड़ रहा है। कृषि उपकरणों पर किसानों को कोई छूट नहीं मिलती है। ट्रैक्टर को व्यवसायिक वाहन घोषित कर दिया गया है जिससे किसानों को ज्यादा टैक्स व अन्य शुल्क देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों से भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा नहीं बद्दाया गया है। किसानों को घर बनाने के लिए वैकल्पिक भुखंड भी

वो चलाएंगे। सरकारी स्कूल नहीं चला सकती है। इसी तरह, सरकारी अस्पतालों को भी प्राइवेट वालों को दे दो। सरकार अस्पताल नहीं चला सकती है। हमने आकर यह साबित कर दिया कि सरकार अगर चाहे और सरकार अगर ईमानदार हो तो सरकार स्कूल भी चला सकती है और अस्पताल भी चला सकती है। जो सरकार स्कूल और अस्पताल नहीं चला पाए, तो फिर उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर वो सरकार रहने लायक नहीं है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश के अंदर एक माहौल यह भी ाया गया था कि कर्मचारियों को अगर पक्का कर दो, तो वो काम नहीं करते हैं। फिर वो आलसी हो जाते हैं। वो काम से मन चुराते हैं। दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे किए। दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति आई। शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो भी किए, वो हमने नहीं किए, वो तो इन सरकारी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने ही किया। ये तो सारे सरकारी हैं और इन्होंने ही कमाल करके दिखा दिया। सरकारी अस्पतालों में हमने काम किया। अब हमारे सर्कारी अस्पताल बहुत शानदार हो गए हैं।

दिल्ली जल बोर्ड के सैकड़ों कर्मचारी हुए परमानेंट

का निजीकरण करो और प्राइवेट कंपनियों व कॉरपोरेट्स को दे दो.

में 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और अब इमारी सरकार के करीब सात साल हो गए हैं। इन सात वर्षों में हमने देर सारे काम किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत कई क्षेत्रों के अंदर हमने काम किए और उन सभी कामों की पूरे देश में भी आज चर्चा हो रही है और दुनिया में भी चर्चा हो रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बताया गया है कि जब से दिल्ली सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक इतने बड़े स्तर पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का कभी नहीं किया गया है। यह दिल्ली सरकार के अंदर पहली बार हो रहा है। शायद देश के अंदर भी पहली बार हो रहा है। अभी आजकल सब उल्टा किया जा रहा है कि पक्के कर्मचारियों को कम करते जाओ और कच्चे कर्मचारियों को बढ़ाते जाओ। जब हमारी सरकार बनी थी. तो उस समय सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत हुआ करती थी। पूरे देश में यह माहौल था कि सरकारी स्कूल अब बंद करो। सरकारी स्कूलों



मिथ भी दूटेगा कि कच्चे कर्मचारियों अरविंद केजरीवाल के हाथों नियमित को पक्का कर दो, तो वे काम नहीं होने का सर्टिफिकेट पाकर जहां इन कर्मचारियों के चेडरे खिल उठे. वहीं करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड में संविदा आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक पर कार्यरत उन 700 कर्मचारियों के साथ 700 कर्मचारियों को नियमित करके देश में एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया। सर्टिफिकेट वितरण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम

नई दिल्ली, प्रात : किरण संवाददाता

कर्नाटक राज्य में हिजाब विवाद में दिल्ली के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता

पार्टी के फायर बांड नेता कपिल मिश्रा

की भी एंट्री हो गई है। इसके साथ कई

अन्य भाजपा नेताओं ने भी हिजाब

विवाद में कूदने पर नोबल पुरस्कार

#### सबसे बढ़ा झूठ है, जो फैलाया जाता है। पक्का होने के बाद यह कर्मचारी लिए आज एक ऐतिहासिक पल था, जिन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नियमित करने का प्रमाण पत्र सौंपा। सीएम सुरक्षित हो गए हैं। इसलिए अब ये पहले से दोगुना काम करेंगे। साथ ही, यह ग्राहक से मिलने गए व्यक्ति को पहले फ्रूटी में पिलाया नशीला पदार्थ, फिर लूटा की एंट्री मिश्रा ने बोला नोबल विजेता पर हमला

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

केजरीवाल सरकार ने एक ऐतिहासिक

निर्णय लेते हुए आज दिल्ली जल बोर्ड में कार्थरत 700 संविदा कर्मचारियों को

नियमित कर दिया। देश में यह पहली

बार हुआ है, जब एक साथ इतने संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी

मिली है। सीएम अरविंद केज्रीवाल

ने कर्मचारियों को पक्का होने का

सटिंफिकेट देते हुए कहा कि दिल्ली

राज्य बनने के बाद इतने बड़े स्तर पर

कच्चे कर्मचारियों को कभी पक्का नही

किया गया। अब पूरे देश में यह मांग

उठेगी कि जब दिल्ली में हो सकता है, तो उनके यहां क्यों नहीं हो सकता?

मेरी मंशा है कि दिल्ली सरकार के सभी

विभागों के कच्चे कर्मचारी पक्के होने

चाहिए, लेकिन हमारे पास पावर बहुत

कम है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने

कहा कि देश में यह माहौल बनाया

गया कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का

कर दी, तो वे काम नहीं करते हैं। यह

न्यू फ्रेंड्स कालोनी थाना क्षेत्र में ग्राहक से मिलने गए व्यक्ति को आरोपितों ने फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिवा और उससे साढ़े तीन लाख रुपये, मोबाइल, चेन और दो अंगूठियां लूट जिल्ला विरोध करने पर आरोपितों ने लिए। विरोध करने पर आरोपितों पीड़ित की पिटाई भी की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, जामिया नगर के बब्ब्यु (22) केंप्यूटर पार्ट्स का काम करते हैं। बुधवार शाम वह अपने ग्राह्क दीपक से मिलने गए ये। दोपक पहले से ही जुलैना लालबत्ती के पास एक कार में दो अन्य लोगों के साथ बैठा था। बब्बू वहां पहुंचे तो आरोपितों ने उन्हें फ़ूटी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इससे वे बेहोश हो गए और आरोपितों ने उनसे लूटपाट की। बब्बू को होश आया तो उन्होंने खुद को एक कमरे में पाया। वहां आरोपित सामने ही बैठकर शराब



आया तो वह एक पार्क के पास पड़े थे। बब्बू ने एक आटो चालक का मोबाइल मांगकर अपने मामा को फोन किया और आपनीती सुनाई। घर पहुंचने पर स्वजन उन्हें अस्पताल ले गए और इलाज कराया। पीडित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। पैसे वापस मांगने गए युवक को चाकू मारान्यू फ्रेंड्स कालोनी थाना क्षेत्र में अपने पैसे वापस मांगने गए दो



पर मुस्लिम लडकियों की हत्या की जा व्यक्तियों को आरोपितों ने जमकर पीटा रही है। पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू होने के पी रहे थे। होश में आता देख आरोपितों और एक पर चाकू से हमला कर दिया। ने बब्बू की पिटाई शुरू कर दी, जिससे मुख्य आरोपित की पहचान रितिक के वे फिर बेहोश हो गए। दोबारा होश रूप में हुई है। कारण हिंदू, सिख लड़कियों की हत्या की जा रही है। उन्होंने वास्तविक मुद्दों पर कभी एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने ई-रिक्शा में बैटी महिला से बाइक सवार

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

राजधानी में बदमाशों के हौसले दिनोंदिन बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस के बेखौफ होकर वह आए दिन एक से बढकर एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला शाइदरा जिले का है. जहां सीबीडी ग्राउंड स्थित क्रास रिवर के माल के पास मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों के कारण एक महिला की जान पर बन आई है। इन बदमाशों ने चलते ई-रिक्शा में महिला से बैग इतनी जोर से खींचा कि वह सड़क पर गिर गई। सिर में चोट लगने से महिला को पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और उनकी हालत नाजुक है। पीड़िता की पहचान कुष्णा नगर इलाके के शंकर नगर एक्सटेशन निवासी रितु (40) के रूप में हुई है। इस मामले में आनंद विहार थाने में लूट और गैर



रही है। रितु के परिवार में पति, जेठ और जेठानी हैं। उनकी जेठानी प्रिया ने पुलिस को बताया कि वह और रितु सोमवार दोपहर शादी समारोह में शामिल होने के लिए ई-रिक्शा में क्रास रिवर माल की तरफ जा रही थीं। दोपहर इरादतन हत्या के प्रयास का मुक्दमा करीब 1:15 बजे माल के सामने एक दर्ज किया गया है। जांच के लिए स्पेशल मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश आए। पीछे बैठा बदमाश रितु के हाथ से बैग छीनने लगा। चूंकि रितु ने बैग को स्टाफ, घंटी आटो थेपट स्क्वाइ समेत कई टीमें बनाई गई हैं। कुछ सॉदिग्धों कसकर पंकड रखा था. ऐसे में पहले

प्रयास में बदमाश उसे छीन नहीं पाया। लेकिन, दूसरे प्रयास में उसने जोर से झपट्टा मारा जिससे रितु का संतुलन बिगड़ गया और वह चलते ई-रिक्शा से सिर के बल सड़क पर गिर पड़ीं। उसके बाद बदमाश बैग लेकर फरार हो गए। रितु के सिर से खुन बहने लगा और वह बेहोश हो गई। उन्हें डा. हेडगेवार अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर देख उन्हें पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें होश नहीं आया है। शाहदरा डीसीपी आर. सत्यसुंदरम ने बताबा कि वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जिले के स्पेशल स्टाफ, एंटी आटो र स्क्वाड, एसएचओ आनंद विहार ष्ट्रेप की क्रैक टीम समेत कई टीमों को जांच में लगाया गया है। सॉदग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द

बदमाश यवती का बेग ले गए थे।

#### बहन की लव मैरेज से नाराज भाई ने बहनोई के भाई को मारी गोली नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता प्रेम विवाह करने वाले युवक के माई को विजयनगर क्षेत्र में गोली मार दी गई। सीने में गोली लगने से युवक गंभीर है। उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि प्रेम

द्वीट में तालिबानी मानसिकता का

विरोध किया है। उन्होंने ताजा टवीट में

लिखा है। इसके अलावा, तीसरे द्वीट

में दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने लिखा है- ये हिजाब नहीं शरिया का

आंदोलन हैं ऐसी कबीलाई, पिछड़ी,

ने ही साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के कैला भट्टा निवासी अनस का मोती मस्जिद कैला भट्टा निवासी युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। 15 दिन पहले दोनों घर से भाग गए, जिसके बाद जेबा के परिजनों ने नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। वहीं, युवती और अनस ने प्रेम ही आरोपितों को दबोच लिया जाएगा। शाहदरा जिले में ही पांच दिन पहले विवाह कर लिया। इसी बात को लूटपाट करने के इरादे से आए बदमाश **हर दोनों पक्षों में र**जिश चल रही थी। पीडित परिजनों का कहना है एक युवती को घसीटते हुए झाड़ियों ले गए थे। वहां उससे मारपीट कि ययती का भाई सलमान इस और छेड़छाड़ की गई थी। जाते-जाते शादी से नाराज था। उसने अनस

विवाह करने वाली युवती के भाई

गुलामी से भरी सोच के लिए भारत मे कोई जगह नहीं हिजाब के नाम पर क्या होता है वो अफगान और ईरान में आगे आरोप लगाया कि मलाला एक कडरपंथी इस्लामी जिहादी एजेंडा चला रही है। इसके बाद भाजपा नेता ने कई द्वीट किया। द्वीट का बह सिलसिला बुधवार को भी जारी है। उन्होंने ताजा

आधिकारिक बयान आ गया है। दिख रहा है स्कूलों में हिजाब, सड़को अब डीयू 17 फरवरी से खुलेगा। पर नमाज, गौ हत्या, खाने में धूकना इस दौरान प्रथम सेमेस्टर के छात्रों इस सबके लिए अलग देश ले चुके हो 1947 में वहीं, भाजपा नेता और को अभी नहीं बुलाया जाएगा, बाकि स्नातक, स्नातकोत्तर के संभी छात्रों को बुलाया जाएगा। प्रथम सेमेस्टर के छात्रों की मार्च में ओपन बुक पूर्व विषायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी हिजाब विवाद पर मलाला की परीक्षा होनी है। यदि उन्हें बुलाते टिप्पणियों पर निष्ठाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि मलाला ने पाकिस्तान हैं तो उनके लिए रुम या छात्रावास में नाबालिग हिंदू सिख लड्कियों के का प्रबंध करना मुश्किल होगा। जबरन धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों पर इसलिए कुछ दिन के लिए उन्हें जनग बात करी नहीं की उनके द्वीर कंसी बार क्यों नहीं की उनके द्वीट में कहा गया है- अजीब है ! मलाला ने पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू सिख लड़कियों के जूबरन् धर्मांतरणू जैसे बुलाना तर्कसंगत नहीं लगता, लैकिन हम स्नातक के द्वितीय, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर के छात्रों को परिसर में प्रवेश की अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर कभी बात नहीं की, लेकिन आज वह तथ्यों की अनुमति देंगे। कक्षाए आफलाइन चलगी। बता दें कि इससे पहले ही पुष्टि किए बिना ट्वीट कर रही है। यहां डीयू को खोलने की मांग काफी पर बता दें कि पाकिस्तानी कार्यकर्ता जोर पकड़ती जा रही थी। कुलपति मलाला यूसुफजई ने कर्नाटक में ऑफिस के पास छात्र लगातार चल रहे हिजाब विवाद पर कहा कि प्रदर्शन कर रहे थे। मंगलवार को कियों को उनके हिजाब में स्कूल प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी जाने से मना करना भयावह है।

नई दिल्ली। राजधानी में जाम और हादसों का कारण बनने वाले ऐसे जुगाड गहा जिन्में छेड़ळाड़ कर कुछ लोग दुर्गाईया का इंजन लगा लेते हैं उन पर सर्व्जी बढ़ाई जाएगी। हाल ही में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों ने ऐसे बाहनों पर दिल्ली के सभी 12 ज़िलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निदेशों के मुताबिक सभी जिलों में टीम गठित कर खासकर सब्जी मंडी स्थानीय मार्गो पर ऐसे वाहनों पर नजर रखी जाए और इन पर कार्रवाई हो। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में बढ़ी संख्या में सामान ढोने के लिए लोग ठेलियों में स्कूटर या बाइक का इंजन लगा लेते हैं।

नहीं दिया जा रहा है। किसानों को भूमि अधिग्रहण पर दिल्ली से ज्यादा मुआवजा पड़ोसी राज्यों में मिलता है। उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन के नाम पर किसानों की जमीन पर सरकारी कब्जा करने की कोशिश हो रही है। भाजपा किसी भी कीमत पर सरकार की यह साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के समय कैसानों को आवंटित भूखंड सरकार रद् कर रही है। भाजपा इसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि मख्यमंत्री ने दिल्ली के किसानों को धान और गेहूं का केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत देने की घोषणा। कई वर्षों बाद भी मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर अमल नहीं हुआ।

#### कर्नाटक में हिजाब विवाद में दिल्ली के पूर्व मंत्री 17 फरवरी से खुलेगा विश्वविद्यालय नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता के सदस्य कमल तिवारी ने आत्मदाह को कोशिश की। छान्न ने अपने दिल्ली विश्वविद्यालय खोलने को ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। माचिस लेकर चला आ रहा संशय अब

भी जलाने वाला था तभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत बयान भी जारी किया, खत्म हो गया। इसे खोलने को लेकर जिसमें कहा गया कि पेट्रोल में पानी मिला हुआ था। छात्र को हिंदुराव अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने छात्र के खिलाफ किसी भी तरह की

> इंटीग्रा कैपीटल मैनेजमेंट लिमिटेड CIN NO. L74899DL1990PLC040042 GST Registration No. 07AAACI0928F2ZI पंजीकृत कार्यालयः 32 रीगल बिल्डिंग, संसद मार्ग. नई दिल्ली – 110001 ईमेल आइनी: Icmi1990@gmail.co टेलिफोन: 011-23361532 फैनस सं. 011–23382588, वेबसाइट www.integraprofit.con

#### सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इंटीग्रा कैंपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड के निदेशक मंडल की यैठक मंगलवार 15 फरवरी, 2022 को प्रातः 11:00 पंजीकर र्यालय 32 रीगल बिल्डिंग, संसद मार नई दिल्ली 110001 में होगी जिसमें 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अनजंकोक्षित वितिय परिणान एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विच स्वीकृत किया जाएगा और कंपनी के नाम में परिर्वतन के लिए प्रस्ताव बोर्ड के समझ रखा जाएगा

#### क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड (पूर्व में गौरव मर्केटाइल्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) वंत्रीकृत कार्वालयः 403 प्रयात किरण, 17, राजेंद्र प्लेस, विल्ली - 110008' दूरपान- नंबरः 011 45142374

कॉपोरेंड कार्यालयः कैमीस्टीज विवियंग, प्लॉट नंबर 1,9नी मॅजिल, सेक्टर 16 ए, फिल्म सिटी, नोएडा - 201301 दूरपाय। नेंबर: 0120 4751818 | बेक्साइट: www.quintligitalmedia.com | email: ca@thequint.com | सीआईएन एस74110ठीएस 1985पीएससी373314

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की बारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/ 2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपन्न संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपन्न संख्या 22/2020 दिनांक 15 जुन, 2020, सामान्य परिपन्न संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सामान्य परिपन्न संख्या। 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, सामान्य परिपन्न संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 और सामान्य परिपन्न संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021 को कॉपोरेंट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार (एमसीए) द्वारा जारी किया गया। COVID-19 (एमसीए सर्कुलर) को घ्यान में रखते हुए, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ई-वोटिंग)।कंपनी ने स्पष्टीकरणकर्ता के साथ पोस्टल बैलेट के लिए नोटिस मेजने का काम पूरा कर लिया है ८ विवरण (पोस्टल बैलेट नोटिस ) 9 फावरी. 2022 को ठन सभी सदस्यों के लिए जिनका नाम 4 फरवरी, 2022 (कट-ऑफ तिथि) के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर / लामार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई देता है। पोस्टल बैलेट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से उन सभी शेवरवारकों को भगवित्र गण है जिनके झील गोतमा के पूर्ण ने प्रथम के साथ मार्गियों के लिये हैं में पंजीकृत हैं । एससीए परिपत्न के भगवित्र गण है जिनके झील में विगीजिदा प्रतिमार्गियों के लिये में पंजीकृत हैं । एससीए परिपत्न की आवश्यकताओं के अनुपालन के संदर्भ में, पोरटल बैलेट नोटिस की चौतिक प्रति और प्रीपेठ बिजनेस लिफाफ इस पॉस्टल बैलेट के लिए सदस्यों को नहीं मेजा जाएया और सदस्यों को ई- केवल मतदान प्रणाली। सदस्यों को भेजे गए उक्त पोस्टल बैलेट नोटिस के तहत केवल ई-बोटिंग के माध्यम से निम्नलिखित

मद संख्या संकल्पों का विवरण

2.

प्लेसः नोएडा

विनांकः 9 फरवरी, 2022

समर्थित छात्र संगठन सीवाइएसएस कृते इंटीग्रा कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेब बूंदा सेठी 07 फरवरी, 2021 (कंपनी सचिव और दिल्ली अनुपालन अधिकारी)

नोटिस

मामलों को अनुमोदन के लिए रखा जा रहा है

जुगाड़ वाहनों पर होगी सख्ती

दिल्ली संक्षिप्त खबरें

#### पाकिस्तान में व्यवसायिक लाम हासिल के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आपत्तिजनक पोस्ट किए नई दिल्ली। कश्मीर मुद्दे पर

आपत्तिजनक पोस्ट करके देश की संप्रभुता को चुनौती देने के मामले में दिल्ली के अधिवक्ता विनीत जिंदल ने हुंडई इंडिया, किया इंडिया. केएफसी इंडिया और पिन्ना हट इंडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कारपोरेट मामलों के मंत्री और दिल्ली पुलिस को शिकायत पत्र भेजकर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। विनीत जिंदल का कहना है कि उक्त कंपनियों ने हाल ही में अपने सोशल मीहिया भकाउंट पर हमारे देश की संप्रभुत को चुनौती देने वाले आपत्तिजनव बयान और पोस्ट किए हैं।जिंदल ने मंत्रालय से इन कंपनियों के पंजीकरण रद करने और उन्हें भारत में कारोबार करने से प्रतिबंधित करने का भी अनुरोध किया है। साथ ही मांग की है कि इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की विभिन्न धाराओं और आइटी अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने शिकायत पत्र में कहा है कि पाकिस्तान में व्यावसायिक लाभ हासिल करने के लिए डन बहराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले आपत्तिजनक पोस्ट किए है, जोकि निंदनीय है। विनीत जिंदल ने यह भी कहा कि यह सर्वविदित है कि कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है और पिछले कई वर्षो से भारत एवं पाकिस्तान के बीच इसे लेकर तनाव रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर यह स्पष्टहै कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। दिल्ली हाईकोर्ट ने की टिप्पणी और पूछा कि हम भारत विरोधी ताकतों की तलाश में कहां जाएं?

नई दिल्ली । नागरिकता संशोधन ळानन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के पीछे राष्ट्रविरोधी ताकतों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कई सवाल उठाए।न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने कहा कि पहले हमें यह पता लगाना होगा कि लोगों को गुमराह करने वाले कौन हैं। पीठ ने इसके साथ ही यह भी पूछा कि हम भारत विरोधी ताकतों की तलाश में कहां जाएं ? अजय गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि याचिका बिना महत्वपूर्ण प्रार्थना के दायर की गई है और इसमें बहुत बयानबाजी है। हाई कोर्ट एक बड़ा मंच है और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सामान्य शिकायतों का फैसला नहीं कर सकता है। पीपुल्स फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) की भूमिका की जांच की मांग पर पीठ ने कहा कि आप मजिस्टेट के पास क्यों नहीं जाते । सवाल यह है कि आप जो मांग रहे हैं वह प्रथम दष्टया मंजूर नहीं किया जा सकता, न हम आपकी बात सुनेंगे। वहीं, गौतम ने जोर देकर कहा कि दिल्ली बंधक बन गई थी और इस मामले की जांच एनआइए से कराई जाए। पीठ ने इस पर कहा कि कार्यवाही को सनसनीखेज न करें। इघर, भड़काऊ भाषण से जुड़ी याचिकाओं पर पीठ ने मामले में शामिल सभी राजनेताओं को पक्षकार बनाने के लिए समय दिया है। उक्त याचिकाओं में भड़काऊ भाषण के लिए ऐसे नेताओं पर एफआइआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

जल बोर्ड के कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति सिर्फ धोरवाः बिघुडी

नई दिल्ली । दिल्ली विद्यानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधडी ने दिल्ली जल बोर्ड में ७०० अस्थाई कर्मचारियों



का स्थाइ करने की मुख्यमंत्र अरविंद केजरीवाल की घोषणा को एक और कोरा झूठ करार दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल से कहा है कि आप कब तक जनता को इस तरह बेवकुफ बनाते रहेंगे। बिधुडी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जल बोर्ड के कर्मचारियों को स्थाई करने की घोषणा करते हुए ऐसा दावा किया है कि जैसे दिल्ली सरकार ने कोई बड़ा कारनामा किया है । बिधुड़ी ने कहा कि जिन 700 कर्मचारियों को रखाई करने की बात कही गई है, वे सभी अपने किसी परिजन की मौत के बाद अनकंपा के आधार पर जल बोर्ड में नियुक्त किए गए थे। उनकी नियुक्ति तो स्थाई होनी ही चाहिए थी लेकिन जल बोर्ड ने जानबूझ कर उन्हें अस्याई रखा। केजरीवाल बताएं कि अनुकंपा के आधार पर की गई उनकी नियक्ति उसी समय स्थाई क्यों नहीं की गई ? ये लोग 2016 से स्थाई होने के लिए संघर्ष कर रहे थे लेकिन दिल्ली सरकार उन्हें स्थाई नहीं कर रही थी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्त हुए जितने कर्मवारी इस समय स्थाई हुए हैं, उससे कहीं अधिक कर्मचारी तो अभी भी स्थाई होने के इंतजार में हैं।बिधूड़ी ने कहा कि डीटीसी, गेस्ट टीचर और दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में जो कर्मचारी अस्थाई हैं ।

सुच्चना 🔹 कुल ५३,६०३ वर्ग मीटर जमीन उपयोग में लाई जाएगी। इसके निर्माण पर कुल १,९१० करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता दिल्ली सचिवालय का नया पता आइटीओ पर बनने वाली बहुमॉजिला इमारत का होगा। इस इमारत को 35 मॅजिला तक बनाए जाने की योजना है। दिल्ली सरकार के नए सचिवालय की इस इमारत की छत पर हेलीपैड होगा। नया सचिवालय आइटीओ में प्रस्तावित ट्विन टावर में बनेगा। इसके तहत एक टावर विकास भवन के प्लाट पर और दूसरा टावर लोक निर्माण मुख्यालय परिसर और जीएसटी बिल्डिंग के प्लाट में बनेगा, जिसके लिए कुल 53,603 वर्ग मीटर जमीन उपयोग में लाई जाएगी। इसके निर्माण पर कुल 1,910 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। का निर्माण दिल्ली सरकार के नियमों के दिल्ली के लोक निर्माण विषाग के मंत्री अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव रखने वाली कंपनी लगाई जाएगी, जिसके लिए सत्येंद्र जैन ने पिछले सप्ताह इन टावरों की योजना पर काम आगे बढ़ाने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश हैं। ग्लोबल टेंडर जारी किए गए हैं। इसे इस परियोजना का डिजाइन तैयार करने 2025 तक बनाए जाने का प्रस्ताव वाली सलाहकार कंपनी नियुक्त करने है।सलाहकार कंवनी को मास्टर प्लान

35 मंजिला टावर की छत पर उतर सकेंगे हेलीकाप्टर विभाग द्वारा जारी निविदा दस्तावेज में होगी। इन टावर में मुख्यमंत्री और मौत्रेवों कहा गया है कि नए कार्यालय भवन

कार्यालयों के अलावा मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों सचिवों और उनके सहायक कर्मचारियों के कार्यालय होंगे। टावर हरित भवन होंगे और इसमें अत्याधनिक बनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।अभी दिल्ली सरकार का जो सचिलालय प्लेयर्स बिच्ल्डग में चल रहा है इसे इस के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रक्रिया 2021 के अनुसार फ्लोर प्रिया रेशियो टावर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। विभिन्न कार्वात शुरू कर दी है।बता दें कि लोक निर्माण के अधिकतम उपयोग की योजना बनानी प्लेयर्स बिल्डिंग को सरकार के अन्य की योजना है। टावर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

कार्यालयों के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया जाएगा।इन टावर में 2,000 1,000 और 500 लोगों की क्षमता वाले सभागार, सेमिनार कक्ष और सम्मेलन हाल होंगे। इसके अलाावा पुस्तकालय, क्रेच, सामुदायिक हाल, केंटीन, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट व जिम होंगे। इमारतों में बाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट सहित स्टिल्ट और बेसमेंट पार्किंग क्षेत्र होंगे। यहां वाई-फाई, सीसीटीवी कैमरे, एक्सेस कंट्रोल, एस्केलेटर, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशच्नग, कांन्फ्रेंस हाल के लिप आडियो / वीडियो सिस्टम, कामन एरिया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा शामिल होगी। अभी तक के ये सबसे ऊंचे टावर होंगे। इस बाबत अधिकारियों ने यह भी कहा कि सलाहकार कंपनी को नए कार्यालय भवन की वास्तकला और लेआउट योजना इस तरह से तैयार करनी होगी कि वर्तमान लोक निर्माण विभाग मुख्यालय इमारत सहित विभिन्न कार्यालयों को हटा दिए जाने

प्राधिकृत शेवर पूंजी में वृद्धि और पुनर्वर्गीकरण के लिए साधारण संकल्प और 1 में संशोधन। कंपनी के एसोसिएशन का ज्ञापन

संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प

कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के वहेरूप से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं ली हैं और सदस्यों से क्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने का अनुरोध किया जाता है। केवल एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में। एमसीए परिपत्रों के आलोक में, जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप पोस्टल बैलेट नोटिस प्राप्त नहीं कर सके, वे पोस्टल बैलेट नोटिस के वहत व्या का पालन करके अपना ईमेल पंजीकृत करा सकते हैं। ईमेल पते के सफलतापूर्वक पंजीकरण या अद्यतन करने प्रदान की गई पंजीकरण जो पर, सदस्य को इस पोस्टल बैलेट के लिए ई-वोटिंग को सक्षम करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस की सॉफ्ट कॉपी और ई-वोटिंग की प्रक्रिया प्राप्त होगी। ई-वोटिंग की अवधि गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 (सुबक 9:00 बजे) से शुरू होगी और गुक्रवार, 11 मार्च, 2022 ( 5:00 बजे) को समापत होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य कट-ऑफ तिथि के अनुसार मौतिक रूप में या ठीमेट रूप में शेयर धारण करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना बोट ठाल सकते हैं। इसके बाद मवदान के लिए सीठीएसएल हारा ई-वोटिंग मॉठ्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। निदेशक मंडल ने श्री देवेश कुमार वशिष्ठ, प्रैविटसिंग कंपनी सचिव और मैससं संजय प्रोवर एंड एसोसिएट्स के पार्टनर, जिनके पास सीपी नंबर 13700 है, को ठाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से। संयीक्षक जांच पूरी होने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और पोस्टल बैलेट के परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.quintdigitalmedia.com पर पोस्ट वि नए जाएगे, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंजों को सुचिव किया जाएगा जहां कंपनी के इक्विटी शेवर सूचीयद हैं। या 13 मार्च, 2022 से पहले। जिन सदस्यों का नाम 4 फरवरी, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामी की सूची में आता है, ठन पर मतदान के उद्देश्य से विचार किवा जाएगा। एक व्यक्ति जो 4 फलवरी, 2022 को सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उदेश्य से समझना चाहिए। कोई भी सदस्य जिसे पोस्टल बेलेट नोटिस और पोस्टल बेलेट फॉर्म बाज नहीं होता है, वह se@thequint.com म subhashdhingre.a@skylinerta.com पर झेल भेज सकता है। पेस्टल बेलेट नोटिस और पोस्टल बेलेट पर्नेम को कंपनी की वेबसाइट www.quintdigitalmedia.com से भी ठाठनलोठ किया जा सकता है। पोस्टल बैलेट के परिणाम रविवार, 13 मार्च, 2022 को या उससे पहले अध्यक्ष द्वारा घोषित किए जाएंगे, और स्टॉक एक्सचेंजों को सचित किया जाएगा. जिस पर कंपनी के झेबर सचीखद हैं। साथ ही, परिणास कंपनी की चेक्साहट www.quintdicitalmedia com पर पोस्ट किए जाएंगे। ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या मुद्धें के मामले में, शेवरधारक www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल को सहायता अनुपाग के तहत देख सकते हैं या helpdesk.evoting@ adsinda com पर एक इंमेल लिख सकते हैं। या श्री सभाष हींगरेजा, स्काईलाइन फाइनेंशियल सविंसेज प्राइवेट लिफ्टिंड, से संपर्क कर सकते हैं। ए-505, दत्तानी प्लाजा, अंधेरी कुलाँ रोड, सुरक्षित पूल, अंधेरी - पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र - 400072 पर अपने ईमेल पते परः subhashdhingreja@skylinerta.com या संपर्क नंबर 022 28511022/497212451

निदेशक मंडल के आदेश से विवंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड एसडी/ तरुण बेलवाल कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी एस. नं. A3919